



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 2 मई 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

अभाविप ने प्रधानमंत्री को कोरोना की द्वितीय लहर के नियंत्रण हेतु छात्र-युवा समुदाय के सुझावों का पत्र भेजा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रधानमंत्री को कोरोना की द्वितीय लहर के नियंत्रण हेतु छात्रों तथा युवाओं के सुझावों का पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र के माध्यम से कोरोना के कारण प्रभावित शिक्षा क्षेत्र सहित युवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिए हैं, जिससे कोरोना के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व संकटकालीन स्थिति में सुधार की संभावनाओं पर तेजी से कार्य किया जा सके।

सुझाव पत्र में अभाविप ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाले BAMS, BHMS सहित सभी विधाओं के कुल 8 लाख चिकित्सक एवं इसी वर्ष उत्तीर्ण हुए 2 लाख विद्यार्थी एवं प्रशिक्षुओं को कोरोना संबंधित सेवाओं में लगाने, एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, पैरामेडिकल के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को चिकित्सा सेवाओं में संलग्न करने, आगामी तीन माह में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्थानीय प्रबंधन की व्यवस्था के साथ टीकाकरण केंद्र खोलने आदि सुझाव प्रमुख रूप से दिए गए हैं।

साथ ही पत्र में कोरोना की विषम परिस्थिति के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने हेतु प्रस्तावित प्रमुख सभी परीक्षाओं को जून तक स्थगित करने, गत एकाधिक वर्ष में कोरोना की महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता का आंकलन करने एवं शिक्षा जगत से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय समिति का गठन कर, इसी वर्ष 2021 के शैक्षणिक सत्र में सेमेस्टर प्रणाली को बदलकर वार्षिक परीक्षा प्रणाली लागू किए जाने, महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को संख्या के अनुपात में खोलने, जिन केंद्रों में विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है उन्हें तुरंत प्रभाव से खोलने, मिड-डे मील योजना कोरोना के कारण बंद है अतः इस योजना का लाभ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाने आदि सुझाव भी दिए गए हैं।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा “कोरोना की द्वितीय लहर ने शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से संवाद के बाद हमने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर 19 सुझाव प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं। आशा है भारत सरकार सुझावों पर विचार करके उनका क्रियान्वयन करेगी जिससे विद्यार्थी समुदाय एवं कोरोना के विरुद्ध महान प्रयासों में संलग्न चिकित्सकों को बड़ी राहत मिलेगी।”

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)